
M M FORGINGS LIMITED

SVK TOWERS, A 24/25, THIRU VI KA INDUSTRIAL ESTATE, GUINDY, CHENNAI- 32
Phone: 91-44-71601000; E-Mail: corporate@mmforgings.com; CIN L51102TN1946PLC001473
Web: www.mmforgings.com

Date: 06 February 2024

The Deputy General Manager Corporate Relationship Department. Bombay Stock Exchange Limited, Rotunda Building, P.J. Towers, First Floor, New Trading Wing, Dalal Street, MUMBAI –400 001	National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051
---	--

Dear Sirs,

Ref.: NSE: security code- MMFL –EQ; BSE: Security Code -522241
SUB: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation, 2015:

Pursuant to Regulation 30 of SEBI Listing Regulation, 2015, we enclose herewith a copies of advertisement published in newspapers viz., Business Standards (English), Dina Mani (Tamil) and Nav Bharat Times (Hindi) dated 06 February 2024, in connection with matter of scheme of amalgamation of Cafoma Autoparts Private limited with M M Forgings Limited. The above advertisement is also uploaded in the Company website viz., www.mmforgings.com.

This is for your information please.


For M M Forgings Limited

Chandrasekar. S
Company Secretary

PM ने रिपोर्ट कार्ड रखकर कांग्रेस को घेरा

कांग्रेस और BJP सरकार का अंतर बताया

लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने BJP के हर अजेडे को साफ किया और सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने के साथ ही कांग्रेस सरकार और BJP सरकार के दौर का अंतर भी बताया। कांग्रेस को परिवारवाद से लेकर, भ्रष्टाचार और महंगाई तक के मसले पर घेरा। मोदी ने अपने लोकसभा संबोधन में क्या राजनीतिक संदेश दिए बता रही है पूनम पांडेय:



PM मोदी ने अपने डेढ़ घंटे से ज्यादा के संबोधन में आधे से ज्यादा समय तक विपक्ष की आलोचना की।

कांग्रेस बनाम बाकी विपक्ष की कोशिश

BJP के खिलाफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और गठबंधन के जरिए मिलकर चुनाव लड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है। मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस बनाम बाकी विपक्ष बनाम की कोशिश की। मोदी का सारा निशाना कांग्रेस पर रहा और वे क्षेत्रीय दलों पर नरम दिखे। उन्होंने कांग्रेस पर विपक्ष का दायित्व निभाने में विफल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस और गठबंधन के साथियों में हो रही खिंचतान पर भी PM ने तंज कसा और कहा कि उन्हें अपने इस कुनवे में एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर कैसे विश्वास करेंगे।

देश बांटने के आरोप पर पलटवार

मोदी ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कब तक दुकड़ों में सोचते रहेंगे और कब तक समाज को बांटते रहेंगे। मोदी ने साफ किया कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उसमें सभी युवा आते हैं और जब महिलाओं की बात होती है तो उसमें सभी महिलाएं आती हैं। इसमें किसी जाति, धर्म का अंतर नहीं होता।

खेला OBC कार्ड भी

मोदी ने मुस्कराते हुए OBC कार्ड भी खेला। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस से अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस को इतना बड़ा OBC नेता नजर नहीं आता।

रिपोर्ट कार्ड और लोकसभा चुनाव के लिए संदेश

मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियों का जिक्र किया। लोकसभा से मोदी ने अपना रिपोर्ट कार्ड देने की कोशिश की। भरोसा जताया कि सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। उन्होंने 370 हटाने को लेकर भी बड़ा संदेश दिया और कहा कि चुनाव में जनता 370 से ज्यादा सीट देगी।

कमजोर नब्बू को भी छूने की कोशिश

महंगाई को विपक्ष हर चुनाव में मुद्दा बनाते हैं और यह जनता की कमजोर नब्बू भी है। मोदी ने इसी नब्बू को छूते हुए कांग्रेस पर अटक किया। मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। नेहरू के कई अलग-अलग वक्त के बयान कोट किए और कहा कि नेहरू ने लाल किले से माना कि महंगाई बढ़ी है। इंदिरा गांधी भी महंगाई पर काबू नहीं कर पाई। मोदी ने कटाक्ष किया कि महंगाई मार गई, महंगाई डायन खाए जात है... ये दोनों गाने कांग्रेस के शासन काल में आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महंगाई को लगातार नियंत्रण में रखा है, दो-तीन फुट और 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के बावजूद।

विपक्ष ने उठाया महंगाई का मुद्दा, BJP ने विपक्ष को बताया हताश

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार, किसानों के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। यही कारण है कि विपक्ष को देश की तरक्की दिखाई नहीं दे रही है। उच्च संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

चर्चा में भाग लेते हुए तुण्मूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय ने कहा कि सरकार ने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां दिए जाने का वादा किया था, लेकिन अभिभाषण में इस बात को क्यों नहीं बताया कि अभी तक कितनी नौकरियां दी गईं? DMK के तिरुक्कि शिवा ने कहा कि यह सरकार

संवाद विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अमीर समर्थक है। AAP के सांसद संदीप पाटक ने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कई सवाल उठाए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भगवान राम को 500 साल बाद अपने स्थान पर वापस ले आए, लेकिन यह क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपये लेकर भागने को विदेश से वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं?

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने नहीं बता पा रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपये लेकर भागने को विदेश से वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं? BNP के राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की हर क्षेत्र में सफलता को देख कर विपक्ष आर्थिक मंच के प्रमुख ने कहा है कि भारत शांति के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। त्रिवेदी ने कहा कहा- 'हमारे विपक्षी सदस्य शेरों की आक्रामकता को लेकर अदालत चले गए थे लेकिन अब देश में ऐसा शोर बैठा है, जिसकी वजह से हमारे देश की ओर आंख उठा कर देखने की हिम्मत किसी में भी नहीं है।'



राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

BRAND CAPITAL

Bennett & Coleman
THE TIMES OF INDIA

We can be the
PRESTIGE
to your
KITCHEN

Building brands for accelerated growth.



To reach our investment team
Scan the QR code
9821500012
www.brandcapital.co.in

Disclaimer: All trademarks/brand names/trade names/Company titles in the advertisement are owned by the respective Companies and BCCL is not - and should not be deemed to be - asserting any right or interest in the same

राज्यसभा में जया बच्चन ने क्यों कहा, हम स्कूल के बच्चे नहीं

विस, नई दिल्ली : राज्यसभा में सोमवार को सुचीबद्ध एक प्रश्न को बाद में पूछे जाने को लेकर कुछ सदस्यों ने नाखुशी जताई। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन ने कहा कि आसन के अलावा और कोई उर्ह बैठने के लिए कहेंगे तो वह नहीं बैठेंगी। उन्होंने कहा, 'मैं सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सम्मान करती हूं। मैं जानना चाहता कि 18वें प्रश्न को क्यों छोड़ दिया गया। जया बच्चन ने कहा कि अगर आसन की ओर अगर सदन का कोई और नेता मेज पीटकर बैठने को कहेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। हमें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।' प्रश्नकाल के दौरान सदन



में उपसभापति हरिवंश ने सुचीबद्ध 17वां प्रश्न लिया और उसके बाद उन्होंने 19वां प्रश्न लिया। इस पर सदस्यों ने कहा कि 18वां प्रश्न छोड़ दिया गया है। उपसभापति ने कहा कि 19वां प्रश्न पूरा होने के बाद 18वें प्रश्न को लिया जाएगा। 18वां प्रश्न विमानन क्षेत्र से संबंधित था। जया बच्चन, के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सम्मान करती हूं। मैं जानना चाहता कि 18वें प्रश्न को क्यों छोड़ दिया गया। जया बच्चन ने कहा कि अगर आसन की ओर अगर सदन का कोई और नेता मेज पीटकर बैठने को कहेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। हमें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।' प्रश्नकाल के दौरान सदन

फटाफट खबरें

गुजरात विधानसभा में PM की सराहना

पीटीआई, गांधीनगर : गुजरात विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान अयोध्या में नर राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों के अलावा, विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के साथ-साथ AAP के सदस्यों ने भी इसे अपना समर्थन दिया।

शपथ नहीं ले पाए संजय सिंह

विस, नई दिल्ली : AAP नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले पाए। सूत्रों का कहना है कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है और इस वजह से उन्हें पद की शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति कार्यालय सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह को शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सुचीबद्ध नहीं था। कोर्ट ने जेल से बाहर आकर शपथ लेने की अनुमति दी थी।

PM ने लोकसभा में कहा- सरकार का तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव के जवाब में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। साथ ही आगामी चुनाव में अपनी प्रचंड जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। PM ने अपने संबोधन की शुरुआत ही विपक्ष पर निशाने और तंज से की। उन्होंने I.N.D.J.A गठबंधन को लेकर हो रही कोशिशों को भानुमति का कुनबा करार दिया। मोदी ने कहा, विपक्ष ने न सिर्फ निराश किया, बल्कि जनता को प्रभावित करने का मौक़ा भी गंवा दिया। कई लोग एकला चले का राग आलाप रहे हैं। अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है तो नई-नई मैकेनिक कांग्रेस उसे संभाल नहीं पा रही। उन्होंने कांग्रेस पर देश के सामर्थ्य को कमतर आंकने का आरोप भी लगाया। PM ने कहा, 'नेहरू जी ने लाल किले से कहा था- हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते... जितना यूरोप, जापान, चीन, रूस और अमेरिका वाले करते हैं। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी हैं। इंदिरा जी की सोच थी नेहरू जी से ज्यादा अलग नहीं थी। उन्होंने लाल किले से कहा था- दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शूभ काम पूरा



भ्रष्टाचार और एजेंसियों की बात

विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि आज भ्रष्टाचारियों पर एवॉरान को लेकर हायतौबा हो रही है, लेकिन एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। 10 साल पहले सदन का समय घोटालों और भ्रष्टाचार की चर्चा पर बीता था, लेकिन अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि UPA के समय में ED ने 5000 से ज्यादा संपत्ति जब्त की, जबकि हमारे समय में एक लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पकड़ी गई। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने बिचौलियों और देश की गरीब जनता का पैसला लूटने वालों पर लगाम लगी है।

होने को होता है तो हम आत्मसंतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउममीद हो जाते हैं। 10 साल की उपलब्धियां : PM मोदी ने 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन ललाक, महिला आरक्षण बिल जैसे कानूनों का जिक्र किया। उन्होंने जहां एक ओर अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अप्रसंगिक कानूनों को हटाने का श्रेय लिया, वहीं अपराध से जुड़े तीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों के कानून जहां दंड पर आधारित थे, वहीं हमारे कानून न्याय व्यवस्था पर आधारित हैं। मोदी ने याद दिलाया कि उनके समय में महंगाई पर नियंत्रण रखने का काम हुआ है, जबकि कांग्रेस राज को महंगाई का प्रतीक बनाया।

राहुल ने 50% आरक्षण की सीमा हटाने की कही बात

पीटीआई, रांची

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में I.N.D.J.A. की सरकार बनने पर आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का सोमवार को वादा किया। उन्होंने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करने की बात भी दोहराई। कांग्रेस नेता ने यह आरोप भी लगाया कि BJP ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-RJD सरकार को गिराने की कोशिश की, क्योंकि मुख्यमंत्री अदिवसी थे। राहुल गांधी ने शहीद मैदान में आयोजित एक रैली में कहा, 'गठबंधन के सभी विधायकों, चर्चा सोरेन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने BJP-RSS की साजिश को रोक दिया।'



सोमवार को झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी

TDP सांसद ने कहा, चुनाव नहीं लड़ंगा

पीटीआई, नई दिल्ली : तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद जयदेव गल्ला ने लोकसभा में कहा कि वह आगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके लिए नेता और उद्यमी की दोहरी जिम्मेदारी को एकसाथ निभाना मुश्किल हो रहा है। एकसाथ दो नावों की सवारी करना मुश्किल है। जयदेव गल्ला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, 'मेरा यह आखिरी भाषण है। मैं चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।'

सड़क हादसे का मुद्दा उठाया गया

विस, नई दिल्ली : राज्यसभा में सोमवार को सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सदस्य फौजिया खान ने कहा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने और जिम्मेदार इाह्विग प्रयाओं को बढ़ावा देने के लिए गाड़ियों में 'डैश कैम' लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटना को र्थित में डैश कैम एक ठोस सबूत प्रदान कर सकता है।

introducing
Punch.ev

beyond — everyday

360° surround view camera system
park easy with eyes all around

— trunk!
level up your storage game

Arcade.ev
— app suite
includes 17 apps and OTA updates

voice assisted electric sunroof
invite the sun to your journeys

26.03 cm digital cockpit
with in-built navigation

acti.ev —
pure EV architecture

range
421# km

122 PS Power
190 Nm Instant Torque
Multi-Drive Modes
(Eco, City, Sport)

Fast Charge in
56* minutes
7.2 kW AC Home
Wallbox Charger

6 Airbags
Electronic Parking Brake
with Auto Hold
Electronic Stability Program

price starts at
₹10.99 Lakh**
**All India Ex-showroom price | T&C apply

TATA .ev

TATA.ev EXCLUSIVE STORES: SECTOR 14, GURUGRAM – 9319197525, 9319197526; SOHNA ROAD, GURUGRAM – 8885553591
SOUTH DELHI: TREO TATA, SAFDARJUNG ENCLAVE – 8879168627; SAB MOTORS PVT LTD, LAJPAT NAGAR – 9619367359; SAB MOTORS PVT LTD, MATHURA ROAD – 9619367581; SAB MOTORS PVT LTD, GOKULPURI – 8291303563; TREO TATA, SAKET – 8108196924; TREO TATA, OKHLA – 9619367703; TREO TATA, NEHRU PLACE – 8108196684; NORTH DELHI: GANGANAGAR AUTOMOBILES – 8108181924; AUTOVIKAS, WAZIRPUR – 8879168423; SPARSH, NARELA – 8291303529; DPS MOTORS, KASHMERE GATE – 8879076134; MALWA AUTOMOBILES, PRASHANT VIHAR – 9619367159; EAST DELHI: SAGAR MOTORS, PATPARGANJ – 9619368950; SAGAR MOTORS, DILSHAD GARDEN – 9619367634; DPS MOTORS, PREET VIHAR – 8108169091; WEST DELHI: AUTOVIKAS, MOTINAGAR – 8879932403; AUTOVIKAS, DWARKA-5 – 8879503816; AUTOVIKAS, DWARKA-20 – 8879503816; TRUENORTH, MAYAPURJ – 9619371104; TRUENORTH, PEERAGARHI – 8291298558; SPARSH, PALAM DABRI ROAD – 9619370824; SPARSH, NAJAFGARH – 9619370348; CENTRAL DELHI: DELIGHT MOTORS, JANAKPURI – 8108116082; SPARSH, KAROL BAGH – 8291326739; NOIDA: SAGAR MOTORS, SEC 5 – 7045242182; SAGAR MOTORS, SEC 63 – 8879689358; GREATER NOIDA: SAGAR MOTORS, SITE 4 – 7045243191; FAZILABAD: SAB MOTORS, MOHAN NAGAR – 7045241819; SAB MOTORS, VAISHALI – 7835045910; SAB MOTORS, PATEL NAGAR – 8291190181; SAB MOTORS, INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD – 8879085873; HAPPUR: SAB MOTORS – 9811310108; MODINAGAR: SAB MOTORS – 8879690470; GHAZIABAD: MULTITECH, SEC28 METRO – 8879956614; AUTOVIKAS, SEC 5 – 7703953543; MEERUT: SHREE VASU AUTOMOBILES – 7506019959; ANJNEY TATA – 7417454804; BINOR: MANGALAM, BINOR – 7055501397; SONIPAT: SWAN MOTORS, KUNDLI, HARYANA – 9215317773

Images and illustrations are indicative and for information purpose only. All features/specifications are not available in all persona and may vary for different persona. Features/specifications are subject to change without prior information. Please consult an authorized Tata Motors dealer for the latest information on features/specifications before deciding to place an order. Colours may not match actual colours due to printing limitations. *Under test ambient conditions. **As per ARAI (under standard testing conditions), actual performance figures may vary depending on various conditions including driving pattern, etc. *Linked with active ZConnect login. *Offered as dealer finance on select persona only. Terms and conditions apply.

1209321

CENTRAL BANK OF INDIA
SELAIYUR BRANCH which is hitherto functioning at No.254, Velachery Main Road, Sembakkam, Chennai 600 073 will be shifted to the following address soon.
NEW PREMISES ADDRESS
 Central Bank of India, Selayur Branch
 No.1, Guruswamy Street,
 Sembakkam, Chennai-600 073
 We solicit your continued patronage...
 Date: 06.02.2024 Senior Manager


PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
 (Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall Patiala-147001)
 Corporate Identity No.: U40109PB2010SGC033813
 Website: www.pspcl.in Mobile No. 96461-55525
Short Term Tender Enquiry No. 7521/P-3/EMP-12561 Dated: 01.02.2024
 Dy. Chief Engineer / Headquarter (Procurement Cell-3) GGSSTP, Roopnagar invites E-Tender ID No. 2024_POWER_116793_1 for the supply and installation of mixed bed exchanger at DM plant Stage-2 GGSSTP, Roopnagar.
 For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from 02.02.2024 / 05:00 PM onwards.
 Note:- Corrigendum & amendments, if any, will be published only online at https://eproc.punjab.gov.in
 RTP 18/24 76155/12/2665/2023/32037

EAST COAST RAILWAY
 Tender Notice No. 51-SBP-TRD-OT-2023-24
 Date: 30.01.2024
NAME OF WORK: OHE MAINTENANCE ACTIVITIES IN THE JURISDICTION OF JUNIOR ENGINEER / TRD / RENGALI AND SENIOR SECTION ENGINEER / TRD / BARGARH ROAD AND OTHER OHE RELATED WORKS OVER THE SAMBALPUR DIVISION FOR A PERIOD OF 02 YEARS.
Approximate Cost (₹) 1,98,72,343.67, Cost of Tender Document (₹) : 5,900/-, EMD (₹) : 2,49,400.00, Completion Period : 24 Months.
Tender Closing Date and Time : At 1530 Hrs. on 21.02.2024.
 No manual offers sent by Post / Courier / Fax or in person accepted against such e-tenders even if these are submitted on firm's letter head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.
 Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available in website: <http://www.tteproc.gov.in>
Note : The prospective tenderers are advised to visit the website 15 (Fifteen) days before the date of closing of tender to note any changes / corrigendum issued for this tender.
 Sr. Divisional Electrical Engineer (TRD), PR-1050/O/23-24 Sambalpur

TAMILNADU TELECOMMUNICATIONS LIMITED
 CIN : L32201TN1988PLC015705
 Regd.Off: No. 16, 1st Floor, Aziz Mulk 3rd Street, Thousand Lights, Chennai, Tamilnadu - 600 006. Tel: 044-28292653, E-mail : tlfocsec@gmail.com website : www.tlfof.in
NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a 183rd Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 12.02.2024 at 03.00 pm** at M/s. Telecommunications Consultants India Limited, TCIL Bhawan, Greater Kailash - I, New Delhi - 110 048 inter-alia, to consider and approve the Un-audited financial results for the quarter ended on 31st December 2023 and other items of agenda.
 The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.tlfof.in and on websites of stock exchange i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com
 For TAMIL NADU TELECOMMUNICATIONS LIMITED
 J. Ramesh Kannan
 Date: 05.02.2024 Managing Director
 Place: Chennai DIN 09292181

TVSCREDIT
PUBLIC NOTICE
 By virtue of this notice, the general public in Villupuram and customers of the TVS Credit are hereby informed that TVS Credit Services Limited has opened a new office "1st Floor, No. D.No. 38A, S.F.No. 204/B2, Mambazhappattu Road, Villupuram, Tamil Nadu- 605604." with effect from 16.02.2024. All the customers and the general public are requested to take note of the same for their financial needs and assistance.
 Place: Villupuram
 Date: 05.02.2024
 TVS Credit Services Limited
 Jayalakshmi Estates, 29, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai - 600006

FORM NO. CAA. 2
 [Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 & 7]
CP(CAA) / 3 (CHE) / 2024
 IN
CA (CAA) / 51 (CHE) / 2023
 In the matter of Sections 230 to 232 & other applicable provisions of the Companies Act, 2013; And
 In the matter of Scheme of Amalgamation of Cafoma Autoparts Private Limited ("Transferor Company") with MM Forgings Limited ("Transferee Company") and their respective Shareholders and Creditors
 Cafoma Autoparts Private Limited
 "SVK Towers" A 24 / 25 Thiru Vi Ka Industrial Estate,
 Guindy, Chennai - 600 032. First Petitioner / Transferor Company
 MM Forgings Limited
 "SVK Towers" A 24 / 25, Thiru Vi Ka Industrial Estate,
 Guindy, Chennai - 600 032. Second Petitioner / Transferee Company

Personal Finance, Insight Out

Personal Finance, Monday to Saturday
 To book your copy, sms reachbbs to 57575 or email order@bmail.in

NOTICE OF PETITION
 Notice is hereby given that a Joint Petition under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 with respect to the Scheme of Amalgamation of Cafoma Autoparts Private Limited ("Transferor Company") with MM Forgings Limited ("Transferee Company") and their respective Shareholders and Creditors ("the Scheme") was presented by the Petitioner companies on 17th day of January, 2024 and was admitted by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chennai and is fixed for hearing on 14th Day of March, 2024 before the NCLT, Division Bench (Court - I), Chennai.
 Any person desirous of opposing the proposed Scheme should send to the Petitioners' Authorized Representative, a notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioners' Authorized Representative, Mr. I B Hanrikrishna having office at 1st Floor, No.44/38, Veerabadrin Street, Nungambakkam, Chennai - 600 034, Tamil Nadu, not later than thirty days from the date of the publication of this Notice. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.
 For Cafoma Autoparts Private Limited Sd/-
 For MM Forgings Limited Sd/-
 Ramnath Nagarajan Director Chandrasekar. S Company Secretary
 Date: 06 February 2024 | Place: Chennai

Personal Finance, Monday to Saturday
 To book your copy, sms reachbbs to 57575 or email order@bmail.in
Business Standard Insight Out

ANGEL ONE LIMITED
 Regd. Off: 601, 6th Floor, Akruti Star, Central Road, MIDC, Andheri East, Mumbai - 400093
 SEBI Registration No (Stock Broker): INZ000161534
PUBLIC NOTICE

Name of SB/AP	Trade Name of SB/AP	NSE Reg. No.	BSE Reg. No.	MCX Reg. No.	Regd Address of SB/AP
JEGANATHAN SETHUPATHY	JEGANATHAN SETHUPATHY	AP0397 282911	AP0106120 1125778	MCX/AP/ 139508	2/14 Thendral Nagar Virudhachalam Taluka Mangalampettai (TP) Mangalam (SA) - Cuddalore 606104 Tamil Nadu


This is to inform/confirm that we have discontinued our Business Relations with the above mentioned Authorized Persons. Clients and General Public are warned against Dealing in with them in his/her capacity as our Authorized Persons and we hereby confirm that we will not be liable in any manner for any consequence of such dealings/deals. Clients are requested to contact our centralized desk 022-3355 1111/4218/5454 or email us to support@angelone.com.
 For ANGEL ONE LTD Sd/-
 Authorised Signatory
 Date : 06.02.2024 Place : Maharashtra

BOOK YOUR COPY
 Call 022 24978470
 SMS reachbbs to 56677
 Email us at order@bmail.in
 Business Standard Insight Out

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
 Head Office: 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Little Mount, Saidapet, Chennai-600015.
 Branch Office: 476, 2nd Floor, MTH Road, Krishna Nagar, Ambattur, Chennai-600053.
DEMAND NOTICE
Notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
 NOTICE is hereby given that the following borrower(s) who have availed loan from Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) have failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their loan to HHFL and that their loan account has been classified as Non-performing Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable properties to HHFL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to HHFL as on date are also indicated here below. The Borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of HHFL, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrower(s) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section(4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the properties and sell the same. The public in general is advised not to deal with properties described here below.
 Branch: Chennai, Borrower: 1. Mr. Senthil Kumar. S, residing at No. 32, Gangaiyamm Kovil Street, Mettukuppam, Neruram, Tiruvallur, Chennai, Tamil Nadu, India - 600107. Also at: RR Electricals, Prop: Mr. Senthil Kumar. S, No.24, Thiruvallur Salai, Meenakshi Amman Nagar, Alwarthirunagar, Chennai-600087. Co-Borrower: Mrs. Kalavathy. S residing at No.32, Gangaiyamm Kovil Street, Mettukuppam, Neruram, Tiruvallur, Chennai, Tamil Nadu, India - 600107. Also At: Mr. Senthil Kumar. S & Mrs. Kalavathy. S, residing at No. 67, Kothavalchavadi Street, Kothavalchavadi Koil, Saidapet, Chennai-600015. Loan Account No. COICR/CROF/A000000360, NPA Date: 31/12/2023. Demand Notice Date: 01.02.2024. Outstanding Amount Rs. 69,50,734 as on 01.02.2024.
Description of Property: All that piece and parcel of land and building a flat No. S-2 in the second floor, B-block of an area of 530 sq. ft., (including common areas) in the building known as "JKR's Adwaita" together with 510 sq. ft., undivided share of land out of the total extent measuring 9974 sq. ft., comprised in T.S.No.23/2, block No.12 of Saidapet Village, Kothavalchavadi Street, Saidapet, Chennai - 600015. And bounded on the North by: Property belongs to Housing Board and Muthuramiam Temple, South by: 13 Feet Pathway, East by: Kothavalchavadi, West by: Vacant Land.
 If the said Borrowers shall fail to make payment to HHFL as aforesaid, HHFL shall proceed against the above mentioned assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the provisions of section 13(3) of the said Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.
 Date: 06.02.2024 Place: Chennai
 For Hinduja Housing Finance Limited, Mr. Sadhath. H (Cluster Legal Manager), Authorized Officer
 Contact Nos: RLM - Saravanabhavan. S - 91766 64992, RRM - Dinesh Babu. S - 95000 96714, CRM - Sarathkumar. R - 98441 40523, CLM - Sadhath. H - 79049 10094

DEMAND NOTICE
EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LTD.
 CIN: U67100MH2007PLC174759
 Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Old ECR Road, Kalina, Mumbai 400098
Demand Notice Under Section 13(2) of The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 ("The Act")
Read With Rule 3 (1) Of The Security Interest (Enforcement) Rules 2002
 The undersigned being the Authorized Officer of the Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited ("EARC") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. In exercise of powers conferred under the Section 13 (2) of the Act read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued a Demand Notice under section 13 (2) of The Act, calling upon the following borrower(s), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given once again, to the Borrowers to pay EARC, within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice, from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following asset have been mortgaged to EARC by the said borrower(s) respectively.

SI No	Name Of The Borrower(s) / Co-Borrower (s)/ Loan Account Number	Demand Notice Date & Amount	Details of The Trust & Assignor
1.	1) Mr. Dhakshimurthy D. (Borrower) 2) Mrs. Rani D. (Co-Borrower) 3) Mr. Venkatesan D. (Co-Borrower) LAN:- 1793712, 15060145	19-01-2024 ₹ 22,83,707.15 ps (Rupees twenty two lakh eighty three thousand seven hundred seven Rupees and seven paise only) as on 19-01-2024	HDB Financial Services Limited, EARC TRUST SC 483
2.	1) M/s. Odidesey Family Salon (Borrower) 2) Mr. Srinivasan (Co-Borrower) 3) Mr. Bijikumar S. (Co-Borrower) 4) Mr. Seshashalam N. (Co-Borrower) LAN:- 2209925	15.78.308.50 ps (Rupees Fifteen Lakhs Seventy Eight Thousand Three Hundred Eight and Fifty Paise Only) as on 19-01-2024	HDB Financial Services Limited, EARC TRUST SC 483
3.	1) M/s. Green Screen (Borrower) 2) Mr. Narayanasamy P K (Co-Borrower) 3) Mrs. Girija T. (Co-Borrower) LAN:- 2560722, 6567456	1,01,76,525.76 ps (Rupees One Crore One Lakh Seventy Six Thousand Five Hundred Twenty Five and Fifty Paise Only) as on 19-01-2024	EARC TRUST SC 482 HDB Financial Services Limited
4.	1) M/s. United Industries (Borrower) 2) Mr. Joseph Sagayagar (Co-Borrower) 3) Mrs. Sudha Joseph (Co-Borrower) LAN:- 5467867, 13648964	1,02,54,216.70 ps (Rupees One Crore Two Lakhs Fifty Four Thousand Two Hundred Sixteen and Seventy Paise Only) as on 19-01-2024	HDB Financial Services Limited, EARC TRUST SC 482
5.	1) Mr. G. Kokkila (Borrower) 2) Mrs. Kalika K. (Co-Borrower) 3) Mrs. Eloya Tamilarasi (Co-Borrower) 4) Mr. Buvanandaram (Co-Borrower) LAN:- 8959336	16,16,202.17 ps (Rupees Sixteen Lakhs Sixteen Thousand Two Hundred Two and Seventeen Paise Only) as on 19-01-2024	HDB Financial Services Limited, EARC TRUST SC 483
6.	1. Mr. Elumalai M. (Borrower) 2. Mrs. Gowri E. (Co-Borrower) LAN:- 13491930	28,97,496.49 ps (Rupees Twenty Eight Lakhs Ninety Seven Thousand Four Hundred Ninety Six and Forty Nine Paise Only) as on 19-01-2024	HDB Financial Services Limited, EARC TRUST SC 483

Description of Property - PROPERTY: Item-1 All that piece and parcel of the property being Land measuring an extent of 719 1/2 Sq. Ft. together with building bearing Plot No.20, Situated at New No 12, 8th Street, Kamaraj Nagar, Korattur, Chennai-600 080, Comprised in Survey No 1164, of Korattur Village, and the land bounded on the - EAST BY: 8th Street NORTH BY: Plot No. 19, WEST BY: Seseppally's Land and House SOUTH BY: Plot No. 21. Within the Registration District of Meera Karur and Sub Registration District of Villivakkam. Item-2 All that Piece and parcel of the property being Land measuring an extent of 1236 Sq. Ft. together with Building bearing Plot No 1-A, Situated at New No 12, 8th Street, Kamaraj Nagar, Korattur, Chennai-600 080, Comprised in Survey No 1163/3 and 1163/2, of Korattur Village, and the land bounded on the - EAST BY: Govinda Reddy's Land NORTH BY: Krishnapada Naicker's Land, WEST BY: 20 Feet Road SOUTH BY: Nadas's Land.
Description of Property - PROPERTY: All That Piece And Parcel Of The Property Bearing Plot No.19, East Part, Door No.19/A, Dr.Katigann Nagar 1st Extension, Thiruvallur, Chennai- 600 019 Of Thiruvottiyur Village & Taluk, Thiruvottiyur District Comprised in S.No.408/1, Thiruvottiyur Town Survey Field Register In T.K.8a No.2385/1424 Dated 04.04.2012 As Per Patta S.No.6/9, Ward No. G, Block No.12/4 Measuring 598 Sq. Ft., Or 55.55 Sq. Mtr., And Bounded On The - East By: Plot No.18 North By: 10 Feet Wide Road West By: Western Part Of Plot No.19 South By: Plot No.20 Situated Within The Sub Registration District Of Thiruvottiyur, And Registration District Of Chennai.
Description of Property - PROPERTY: All The Piece And Parcel Of Property Bearing Situated At Chennai Central Registration District, Villivakkam Sub Registration Office, Thiruvallur District, Ambattur Taluk, No.6, Korattur Village, Survey No.398/1, Chennai - 600076 Korattur, Abangham, Perumal Kovil 2nd Cross Street, Plot No. 14, With An Extent Of 1056 Sq. Ft. Is Bounded On The - East By: Plot No. 15, North By: Perumal Kovil 2nd Cross Street West By: Survey No. 398/2, Plot South By: Remaining Land.
 If the said Borrowers shall fail to make payment to EARC as aforesaid, EARC shall proceed against the above secured assets under the section 13(4) of the Act and applicable rules, entirely at the risks of the said Borrower(s) as to costs and consequences. The borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of EARC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.
 Date: 06.02.2024 Sd/- Authorized Officer
 Place: Tamilnadu For Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited


BAJAJ FINANCE LIMITED
 CORPORATE OFFICE: 3RD FLOOR, PANCHSHIL TECH PARK, VIMAN NAGAR, PUNE-411014, MAHARASHTRA.
 Branch Office: Bajaj Finance Ltd, 8th Floor, Unit No. 804,805,806, Delta Wing, Raheja Towers, Anna Salai, Chennai-600002
 Authorized Officer's Details: Name: Varadaraj, M | Email : Varadaraj.M@Bajajfinserv.in | Mob No: 9791005322 & 9778385461
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT 2002 (Act)
 Notice is hereby given to the public in general that the below mentioned Borrower/co-borrower mortgaged the immovable property which is described hereunder to Bajaj Finance Limited ("BFL") and the possession of the said immovable property ("secured asset/property") has been taken over by the Authorized Officer in accordance of the SARFAESI Act 2002 and rules there to. The secured asset will be sold through public auction by bidding for realization of the loan dues, applicable interest, charges and costs etc., payable to BFL, as detailed below. The secured asset is being sold on 12/03/2024 and the bidding will be held on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" under the rule number 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) and on the terms and conditions specified here-under:

Loan a/c Details Borrower/s & Guarantor's Name & Address	1.Date & Time of E-Auction	2.Last Date of Submission of EMD	3.Date & Time of the Property Inspection	1. Reserve Price	2. EMD Of The Property	3. Bid Increment
LAN: 403SHO20291130, 403SHO20291376 V.PRABHURUL VIJAYADROSS (Borrower) At No 22/3 Vinayaga Apts, Indira Nagar III Avenue, Adyar, Chennai, Tamilnadu-600020 TOTAL OUTSTANDING:-Rs. 31,40,956/- (Rupees Thirty One Lakhs Forty Thousand Nine Hundred and Fifty Six Only), along with future interest and charges accrued w.r.t 31/01/2024	1) E-Auction Date :- 12/03/2024 Between 11:00 Am To 12:00 Pm With Unlimited Extension Of 5 Minutes 2) Last Date Of Submission Of EMD With KYC Is :- 11/03/2024 Up To 5:00p.m (IST) 3) Date Of Inspection :- 06/02/2024 To 07/03/2024 Between 11:00 Am To 4:00 p.m (IST).	11:00 Am To 12:00 Pm With Unlimited Extension Of 5 Minutes	07/03/2024 Between 11:00 Am To 4:00 p.m (IST).	The Reserve Price of im-movable is Fixed for Rs.17,00,000/- (Rupees Sev-enteen Lakhs Only) and the earnest money deposit will be Rs.1,70,000/- (Rupees One Lakh Seventy Thousand and Only) 10% of Reserve Price. BID INCREMENT - Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) & IN SUCH MULTIPLES.	2. EMD Of The Property	3. Bid Increment

Description of the immovable property: Schedule-A:-Flat No.F-2 Second floor having super builtup area 750 sq ft including common area in Annad apartments, together 367sqft undivided of share land, in the total extent measuring 99 Cents, Comprised In S.Nos 25B-1A1,25B-1A3,25B-1B1,25B-1B3,25B-2 and 3052 Sq.ft., 3924 Sq.ft., and 3488 Sq.ft., in S.Nos 25B-1A2,25B-1B2, of Urappakkam Village, R.S Ranganathan Street,Kattankolathur Panchayat Union, Kanchipuram District.
TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC AUCTION ARE AS UNDER
 Public Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" and is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Bajaj Finance Limited. The secured asset will not be sold below the Reserve price. The Auction Sale will be online through e-auction portal. The e-auction will take place through portal <https://bajajfinauctions.in>, on 12th Mar, 2024 from 11:00 AM to 12:00 PM to onwards with unlimited auto extension of 5 minutes. For detailed terms and conditions please visit our company website URL <https://cms-assets.bajajfinserv.in/isc/content/bajajfinance/auaction-website-note-v-praburuvilvijayadrosspdf?sci1&mtl=pdf> or for any clarification, please contact with authorized officer.
 Date:06-02-2024 Place: Chennai Sd/- (Varadaraj M) Authorized Officer Bajaj Finance Limited

MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED
 Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092
 CIN - U45303DL2005PLC329746
Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2023 (Rs. in Lacs)

SI No.	Particulars	For the nine months ended				
		For the quarter ended December 31, 2023	For the quarter ended December 31, 2022	For the nine months ended December 31, 2023	For the nine months ended December 31, 2022	For the nine months ended March 31, 2023
1	Total Income from Operations	2,984.99	2,737.37	8,371.27	7,413.20	10,238.26
2	Net Profit / (Loss) for the period/year (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	517.19	834.83	1,544.03	1,833.63	2,230.29
3	Net Profit / (Loss) for the period/year Before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	517.19	834.83	1,544.03	1,833.63	2,230.29
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	517.19	841.83	1,560.61	1,837.13	2,242.24
5	Total Comprehensive Income for the period/year (Comprising profit / (Loss) for the period/year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	516.92	844.70	1,555.92	1,840.82	2,253.28
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(10,237.27)	(12,208.38)	(10,237.27)	(12,208.38)	(11,793.19)
8	Net worth	(301.27)	(2,272.38)	(301.27)	(2,272.38)	(1,857.19)
9	Paid up debt capital / Outstanding debt	22,485.57	23,001.12	22,485.57	23,001.12	22,311.13
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
11	Debt / Equity Ratio	(74.64)	(10.12)	(74.64)	(10.12)	(12.01)
12	Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each) (For Continuing and discontinued operations)	0.52	0.85	1.57	1.85	2.26
13	1. Basic	0.52	0.85	1.57	1.85	2.26
14	2. Diluted	-	-	-	-	-
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
16	Debt service coverage ratio	0.19	3.12	0.50	1.90	1.66
17	Interest Service Coverage Ratio	1.49	3.12	2.83	2.67	2.65

Notes:
 1. The above unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months period ended December 31, 2023 have been reviewed and approved by the Audit Committee & Board of directors in their meeting held on February 05, 2024. The statutory auditors of the Company have carried out limited review of the unaudited financial results.
 2. In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR). However, the Company is regular in redeeming debentures matured during the period.
 3. Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as per separate Annexure attached, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on <https://www.bseindia.com>.
 4. The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the BSE Limited and on the company website: <https://mbel.co.in/investor-relation/>
 For and on behalf of Board of Directors
 MAHUA BHARATPUR EXPRESSWAYS LIMITED
 Sd/-
 Mridul Gupta Director
 Place : Noida
 Date : February 05, 2024 DIN: 09731498

ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED
 Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092
 CIN - U63031DL2005PLC349200
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Amounts in Lacs)

SI No.	Particulars	For the quarter ended		For the Nine months ended		For the year ended
		December 31, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	
1	Total Income from Operations	1,078.67	1,424.81	3,239.05	3,717.71	4,898.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(562.20)	(740.25)	(1,144.37)	(1,837.88)	(2,255.90)
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(562.20)	(740.25)	(1,144.37)	(1,837.88)	(2,255.90)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(562.20)	(520.69)	(1,144.37)	(1,383.69)	(4,408.97)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(562.40)	(521.86)	(1,143.43)	(1,383.75)	(4,405.55)
6	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(7,755.86)	(3,596.21)	(7,755.86)	(3,596.21)	(6,612.43)
8	Security Premium Account	-	-	-	-	-
9	Net worth	(6,565.85)	(2,406.20)	(6,565.85)	(2,406.20)	(5,422.42)
10	Paid up debt capital / Outstanding debt	26,156.73	19,433.58	26,156.73	19,433.58	20,189.86
11	Outstanding Redeemable Preference Shares					